

### सूचर्णा:

इस किस्म के पौधे 120–130 सेमी. ऊँचे होते हैं जो 80–90 दिन में पक कर तैयार हो जाते हैं। इसकी उपज क्षमता 16 विवर्टल प्रति हैक्टर है।

### गुजरात अमरेन्थ-1:

यह किस्म 100–110 दिन में तैयार होकर लगभग 20 विवर्टल प्रति हैक्टर उपज देती है।

### गुजरात अमरेन्थ-2:

यह शीघ्र तैयार होने वाली (90 दिन) उन्नत किस्म है जिससे लगभग 23 विवर्टल प्रति हैक्टर उपज प्राप्त होती है।

### कपिलासा:

इस किस्म पौधे 165 सेमी. लम्बे होते हैं। फसल 95 दिन में तैयार होकर लगभग 13–14 विवर्टल प्रति हैक्टर उपज देती है। यह कीट-रोग प्रतिरोधी किस्म है।

### गुजरात अमरेन्थ-3:

इस किस्म के पौधे 130–150 सेमी. लम्बे होते हैं। यह 90–100 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा प्रति हैक्टर 12–13 विवर्टल उपज देने में सक्षम है।

### आर.एम.ए.-4:

यह किस्म 122 दिन में तैयार होकर 13–14 विवर्टल प्रति हैक्टर उपज देती है।

### आर.एम.ए.-7:

इस किस्म के पौधे 120 सेमी. ऊँचे होते हैं तथा 126 दिन में तैयार होकर लगभग 14–15 विवर्टल प्रति हैक्टर उपज देती है।

### सही समय पर करें बुवाई:

दानों एवं सब्जी-भाजी के लिए रामदाने की फसल अमूमन वर्ष भर ली जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुवाई जून से जुलाई और अक्टूबर से नवम्बर में करने पर अधिक उपज प्राप्त होती है। सिंचाई की सुविधा होने पर इसे फरवरी-मार्च में भी बोया जा सकता है।

### कितना बीज और कैसे करें बुवाई:

बीज की मात्रा बुवाई की विधि पर निर्भर रहती है। छिड़कवां विधि से बुवाई करने पर 2 किग्रा. तथा कतार विधि से बुवाई करने पर 1.2 से 1.5 किग्रा प्रति हैक्टर बीज पर्याप्त रहता है। प्रायः किसान छिटकवां विधि से बुवाई करते हैं क्योंकि इससे कम मेहनत में सुगमता से बुवाई की जा सकती है। परन्तु अधिकतम उपज के लिए बुवाई पक्कियों में करना चाहिए। कतार विधि से बुवाई करने से सस्य क्रियाओं में आसानी होती है। साथ ही उचित पौध संख्या और समुचित बढ़वार होने से उपज अधिक प्राप्त होती है। कतार से कतार 45 सेमी. तथा पौध से पौध मध्य 15 सेमी. का फांसला रखना उत्तम रहता है। बीज की 2 सेमी. की गहराई पर बोना चाहिए। ध्यान रखें की बुवाई करते समय खेत में पर्याप्त नर्मी रहे वरना अंकुरण प्रभावित हो सकता है। आसानी से बुवाई करने के लिए बीज को रेत के साथ मिलाकर (1:4) बोया जाना अच्छा रहता है।

### खाद एवं उर्वरक:

रामदाने की फसल प्रायः कम उपजाऊ एवं सीमांत भूमियों में की जाती है। खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल लेशमात्र किया जाता है जिससे किसानों को कम उपज प्राप्त होती है। सामान्य भूमियों में 5–6 टन गोबर की खाद को खेत में एक समान बर्खेर कर जुताई कर देना चाहिए। इसके अलावा बुवाई के समय 60 किग्रा. नाइट्रोजन, 40 किग्रा. फास्फोरस और 20 किग्रा. पोटाश प्रति हैक्टर की दर से कतार में देना लाभप्रद पाया गया है।

### सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण:

खरीफ में बोई गई रामदाने की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। रबी एवं जायद में बोई जाने वाली फसल में 3–4 सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। फूल और दाना बनते समय खेत में पर्याप्त नर्मी रहने से उपज में बढ़ोत्तरी होती है। वर्षा ऋतु के समय खेत से में जल निकास की व्यवस्था अवश्य होना चाहिए। बुवाई के 5–6 दिन बाद खेत में खरवतवार उग आते हैं जिनके नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार निदाई गुडाई करना चाहिए।

### कीट रोग प्रबंधन:

सामान्यतः रामदाने की फसल में कीट व्याधि का प्रकोप कम ही होता है। यदा कदा पौधों पर पर्णजालक कीट का प्रकोप हो जाता है। यह कीट पत्तियों को क्षति पुहंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाईल-ओ-डेमिटान या डाई मिथेएट के 0.1 प्रतिशत अथवा क्यूनालफास के 1.5 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना लाभप्रद रहता है।

### कटाई एवं उपज:

रामदाने की फसल लगभग 90–100 दिन में तैयार हो जाती है। बालियाँ हल्की पीली पड़ने पर कटाई कर लेना चाहिए। बिलंब से काटने पर दाने झड़ने लगते हैं। अच्छी प्रकार सुखाने के बाद मड़ाई कर दाना साफ कर लें। सामान्यतौर पर रामदाने की औसतन 15–16 विवर्टल प्रति हैक्टर तकदानों की उपज प्राप्त होती है। उन्नत सस्य विधियों का अनुशारण करते हुए 20–25 विवर्टल प्रति हैक्टर तक उपज ली जा सकती है। बुवाई के 30 दिन बाद पत्तियाँ हरी सब्जी के रूप में इस्तेमाल अथवा बाजार में बेच कर मुनाफा अर्जित किया जा सकता है।

### रामदाना की फसल से किसानों को होने वाले लाभ:

चौलाई की खेती के लिए प्रति एकड़ करीब 200 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बीज का दाम करीब 75–80 रुपये बैरता है। फसल पकने पर प्रति एकड़ 3 से 4 विवर्टल रामदाना पैदा होता है। बाजार में ये 75–80 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकता है। यानी प्रति एकड़ 30 हजार रुपये की उपज। इसीलिए इसे छोटी जोत वाले किसानों के लिए बेजोड़ माना जाता है। चौलाई की बुवाई के करीब महीने भर इसकी पत्तियाँ भी तोड़ी जाती हैं। इसे बेचने से भी आमदनी होती है।

प्रांग.नि./तप्र.सा.-2022/38

## बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रामदाना की उत्पादन तकनीकी



लेखक

अमित तोमर

एवं

सुशील कुमार चतुर्वेदी



प्रसार शिक्षा निदेशालय

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

झाँसी-284 003, उत्तर प्रदेश (भारत)

Website: [www.rlbcau.ac.in](http://www.rlbcau.ac.in)

विशेष जानकारी हेतु समर्पक करें

डॉ. एम.एस. सिंह

निदेशक प्रभारी शिक्षा

प्रसार शिक्षा निदेशालय

दूरध्वाय: +91-789746699

ई-मेल : [directorextension.rlbcau@gmail.com](mailto:directorextension.rlbcau@gmail.com)

Printed at : Classic Enterprises, Jhansi. 7007122381, 9415113108

## परिचय:

भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी प्रवृत्ति की है जिसके भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों यथा प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स) की कमी रहती है जिससे बड़ी तायदाद में बच्चे व वयस्क कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। हमारे पारंपरिक भोजन में विविध अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, जौ, गेंहूँ, मक्का तथा दालों में अरहर, मूँग, उड़द, लौबिया, मसूर, चना, कुल्थी, तिवड़ा आदि सम्मिलित हुआ करते थे जिससे हमारे शरीर को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते रहते थे। फलस्वरूप हमारे पूर्वज ऊर्जावान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी हुआ करते थे। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेंहूँ और धान फसल चक्र का बोलवाला हो गया, जिसके चलते गेंहूँ, चावल और थोड़ी सी दाल हमारे भोजन का अहम हिस्सा बन कर रह गए तथा मोटे और पोषक अनाज आम आदमी की थाली से गायब ही हो गए। इस बदलाव का खामोजादा देश की बहुत बड़ी आबादी खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के रूप में भुगतने अभियान है। अभी हाल ही में हमारे देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है। सही मायने में देश में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा की भी दरकार है। इसके लिए सीमित लागत में कठिन वातावरण में भी अधिकतम उत्पादन देने वाली अल्पप्रयुक्त फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसी ही सर्वगुणिय आदर्श फसल है—रामदाना, जिसे राजगिरा तथा चौलाई के नाम से भी लोकप्रिय है। चौलाई अर्थात् रामदाना एक बहुउद्देशीय एवं बहुमूल्य अल्पप्रयुक्त खाना है जिसके पत्ते से लेकर तना, फूल और दाना उपयोग में लाये जाते हैं। इसका बीज पीला सफेद खसखस जैसा दिखता है। आमतोर पर रामदाने की खेती सब्जी-भाजी और दानों के लिए की जाती है। राजगिरा को दाना या आटा दोनों रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके दानों को फुलाकर इससे अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे लड्डू, चिक्की, हलवा आदि तैयार किये जाते हैं। अमेरिका में राजगिरा से विविध बैकरी पदार्थ यथा ब्रेड, विस्कुट, पास्ता, पेस्ट्री, केक आदि तैयार किये जाते हैं।

हमारे देश रामदाना को विभिन्न नामों जैसे— राजगीरा, चुआ, चौलाई, मारछा से जाना जाता है। यह एक बहुउद्देशीय धान्य स्वरूप फसल है, इसकी खेती बीज, हरे एवं सूखे चारे, प्रारम्भिक में सब्जी व सजावट के लिए की जाती है। इसकी खेती मुख्यतया उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में होती रही है। परन्तु अब देश के अन्य भागों में भी होने लगी है। इसका दाना काफी पौष्टिक होता है।

इसकी विभिन्न किसियों में सामान्यतया 12 से 17 प्रतिशत प्रोटीन तथा प्रोटीन में 5.5 प्रतिशत लाईसिन होता है। रामदाना एवं गेंहूँ की मिश्रित आटे से बनी रोटी को एक पूर्ण आहार माना जाता है। इसके दानों को फुलाकर कई तरह के खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से लड्डू बनाना अधिक प्रचलित है। इसके अलावा कई प्रकार के बैकरी खाद्य पदार्थ जैसे विस्किट, केंक पेस्ट्री, केंक आदि भी बनाये जाते हैं। रामदाना या राजगीरा से बनाये गये बाल आहार को उत्तम माना जाता है। इसकी पसियों में ऑक्जलेट एवं नाइट्रेट की मात्रा कम होने के कारण यह एक पौष्टिक एवं सुपोष्य हरा चारा भी माना जाता है। रामदाना तेल रक्तदबाव व कोरेनी हृदय बीमारी में भी उपयोगी है।

दरअसल बथुआ कुल (चिनोपोडेरी) में जन्मी यह कूट धान्य (स्युडोरीरियल—नान—सीरियल) है जो मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के लिहाज से अत्यन्त धनी और गुणकारी है। मेहनतकश किसान इसे खाकर ऊर्जायुक्त होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करते थे। इसके लाभों से उपकृत होकर उन्होने इसका नाम रामदाना (भगवान का दाना) और राजगीरा (शाही अनाज) रखा जिसे अंग्रेजी में ऐरंथ द्वारा कहते हैं। ऐरंथ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई मानी जाती है जिसका भावार्थ मृत्यु की संभावना को कम करना है। पौष्टिकता से परिपूर्ण होने के कारण इसको उपवास के दिनों में खाया जाता है। इसमें गेंहूँ चावल की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक पायी जाती है। चौलाई के दानों में पाई जाने वाली आवश्यक अमीनो अम्ल व लाईसीन की मात्रा अन्य खाना है जो तुलना में ज्यादा होती है। शाकाहारी लोगों के लिए चौलाई एक

विशेष खाद्य स्त्रोत है जिसकी गुणवत्ता मछली में उपलब्ध प्रोटीन के बराबर मानी जाती है। गेहूँ की तुलना में चौलाई के दानों में 10 गुना से अधिक कैल्शियम, चार गुना से अधिक वसा, दो गुना रेशा व तीन गुना से अधिक लोहा पाया जाता है। इसके अलावा मानव को स्वस्थ व उर्जावान रखने के लिए तमाम आवश्यक पोषक तत्व इस नहे बीज में विद्युतीय रूप से उपलब्ध हैं। मान है तभी तो इसके 100 ग्राम दानों का सेवन करने से 410 कि.ग्रा. कैलौरी हमें प्राप्त होती है जो कि अन्य अनाजों से काफी अधिक है।

**तालिका-1:** गेहूँ, चावल व रामदाने का पोषक मान (प्रति 100 ग्राम दाना).

पोषक तत्व	गेहूँ	चावल	रामदाना (चौलाई)
प्रोटीन (ग्राम)	11.8	6.8	15.6
वसा (ग्रा.)	1.5	0.5	6.3
रेशा (ग्रा.)	1.2	0.2	2.4
खनिज लवण (ग्रा.)	1.5	0.7	2.9
कैल्शियम (मि.ग्रा.)	41	10	222
लाईसिन (ग्रा.)	2.9	3.7	5.5
मिथियन (ग्रा.)	1.5	2.4	2.6
सिस्टीन (ग्रा.)	2.2	1.4	2.1
आईसल्ट्युसिन (ग्रा.)	3.3	3.9	3.9
लोहा (मि.ग्रा.)	3.5	1.8	13.9
ऊर्जा (कि.ग्रा. कैलोरी)	346	345	410

इसके पत्तों की भाजी चौलाई के रूप में आज भी लोकप्रिय है तथा वर्ष की सभी ऋतुओं में हमें उपलब्ध रहती है। यहीं नहीं जन-जातीय क्षेत्रों में रामदाने का प्रयोग अनेक प्रकार के रोग दोष दूर करने में बहुबोधी से किया जाता है। इसके अलावा रामदाने के तेल में स्वचालिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसे सौन्दर्य प्रसाधनों, दवा तथा कम्फ्यूटर की डिस्क की चिकनाई में प्रयोग किया जाता है।

**रामदाना की प्रजातियाँ:**

चौलाई, रामदाना या राजगिरा के नाम से जाने जाना वाला अमरन्थेसी कुल का यह पौधा सीधा बढ़ता है जिसकी

पतियाँ चौड़ी व बालियाँ भूरी अथवा लाल रंग की होती हैं। इसकी चार प्रजातियाँ— अमरेन्थस हाईपिकान्ड्रेक्स, अमरेन्थस कारडेन्स, अमरेन्थस रड्डूलिस, अमरेन्थस कर्लन्टस दानों के लिए लगाई जाती हैं। सब्जी के लिए मुख्यतः अमरेन्थस डूबियस, अमरेन्थस वलीटन, अमरेन्थस विरीडीस, अमरेन्थस ट्राइक्लर का उपयोग किया जाता है, जबकि अमरेन्थस हाइब्रिड नामक प्रजाति सब्जी व चारे के लिए लगाई जाती है।

**रामदाना उत्पादन की सूची तकनीक:**

विश्व के अनेक देशों में चौलाई—रामदाना की खेती प्रचलित है। भारत में इसकी खेती जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण व उत्तर पूर्वी भारत में अल्प प्रयुक्त फसल के रूप में की जाती है। देश के पर्वतीय क्षेत्रों में रामदाना एक नकदी फसल के रूप में उगाई जाती है तथा पहाड़ियों के भोजन का अहम हिस्सा रखती है। रामदाने की खेती गैर उपजाऊ, कंकरीली—पथरीली भूमियों तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जाती है। रामदाने की फसल में सूखा सहन करने की अच्छी क्षमता होती है।

**भूमि का चयन एवं खेत की तैयारी:**

रामदाने की खेती अमूमन सभी प्रकार की भूमियों से की जा सकती है परन्तु अच्छी उपज के लिए जल निकास युक्त बलुई दो दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। पौध बढ़वार और विकास के लिए मृदा की पीएच मान 6 से 8 के मध्य अच्छा माना जाता है। रामदाने का बीज बहुत छोटा होता है। अतः खेत की अच्छी प्रकार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए जिससे बीजों का मृदा से संपर्क अच्छी प्रकार से हो सके इसके लिए खेत में 2-3 बार जुताई कर पाटा लगाएं व खेत को समतल कर लेना चाहिए।

**उन्नत किस्मों का चुनाव:**

अखिल भारतीय अल्प प्रयुक्त फसल अनुसंधान परियोजना द्वारा रामदाने की अनेकों उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रामदाना की किस्मों का विवरण अग्र प्रस्तुत है।